

Ref: RailTel/Sectt/21/SE/S-16

Date: July 28, 2025

लिस्टिंग विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, 'एक्सचेंज प्लाजा', सी-1, ब्लॉक जी, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई - 400 051	कॉर्पोरेट संबंध विभाग, बीएसई लिमिटेड, रोटुंडा बिल्डिंग, पी जे टावर्स, दलाल स्ट्रीट, किला, मुंबई - 400 001
<b>Listing Department, National Stock Exchange of India Limited 'Exchange Plaza', C-1, Block G, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051</b>	<b>Corporate Relationship Department, BSE Limited, Rotunda Building, P J Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001</b>
<b>Scrip Symbol- RAILTEL</b>	<b>Scrip Code- 543265</b>

**Sub: Copy of Newspaper publications of 25th Annual General Meeting**

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of clippings of Newspaper publications confirming dispatch of notice of 25th Annual General Meeting and Annual Report of the Company. The notice was published in Business Standard newspaper in English and Hindi languages on 26th July 2025.

2. The above-mentioned publications will also be hosted on the website of the Company at <http://www.railtel.in/>.

3. Please take note of the above information on record.

धन्यवाद,

रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए

जे. एस. मारवाह  
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी  
सदस्यता संख्या – एफ सी एस 8075

संलग्न: ऊपरोक्त अनुसार

वितरण:- 1) सहायक कंपनी सचिव को फाइल में रखने हेतु।

2) सहायक महाप्रबंधक/पी.आर.ओ.को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम  
CIN : L64202DL2000GOI107905

Registered & Corporate Office : Plate-A, 6th Floor, Office Block, Tower-2, East Kidwai Nagar, New Delhi - 110023  
T : +91 11 22900600, F +91 11 22900699 | Website : www.railtelindia.com



# Business Standard Insight Out

---

 [businessstandard](https://www.youtube.com/businessstandard)

 [bsindia](https://twitter.com/bsindia)

[business-standard.com](https://business-standard.com)

businessstandard X bsindia business-standard.com

**हड़ियन बैंक**  **Indian Bank**

**CORPORATE OFFICE**  
RESOURCES & GOVERNMENT  
RELATIONSHIP DEPARTMENT  
254-260, ANVAI SHANMUGAM SALAI,  
ROYAPETTAI, CHENNAI - 600 014.

**RFP FOR SELECTION OF INSURANCE PARTNERS FOR PROVIDING GROUP PERSONAL HEALTH INSURANCE POLICY (CANCER INSURANCE COVERAGE) FOR ACCOUNT HOLDERS OF IND SHAKTI SPECIFIC SAVINGS BANK SCHEME OF INDIAN BANK**  
Ref: COR&GR/BASCRFP-02/2025-26 dated: 24.07.2025  
Indian Bank invites bids from eligible bidders for selection of insurance partners for providing Group Personal Health Insurance Policy (Cancer Insurance coverage) for account holders of Ind Shakti Specific Savings Bank Scheme of Indian Bank.  
For details, please visit our website: [www.indianbank.in](http://www.indianbank.in)  
Last date for receipt of bid is 18th August 2025, 2:30PM

**POPULATION RESEARCH CENTRE**  
(An Establishment of the Ministry of Health and Family Welfare, GOI)

**UNIVERSITY OF KASHMIR**  
NAAC Accredited Grade 'A++' | HAZRATBAL, SRINAGAR-190005

**ADVERTISEMENT**  
Applications purely of contractual basis are invited from eligible candidates for one post each of **Field Investigator (FI), Upper Division Clerk (UDC) and Research Fellow-I and Research Fellow-II**, purely on contractual basis is also scheduled to be held on **07.08.2025 at 10.00 AM** in the Office of the undersigned. For details the candidates are invited to apply, last date to apply, qualifications, experience and other terms & conditions, visit the official website: <http://prcu.uok.edu.in> & [www.kashmiruniversity.net](http://www.kashmiruniversity.net).  
LAST DATE TO APPLY FOR Field Investigator (FI), Upper Division Clerk (UDC) and Post: 10/08/2025 AND FOR Research Fellow-I and Research Fellow-II: 05/08/2025.  
No: F (Adv. Contractual-PRC)/KU/25  
Date: 24.07.2025

Sd/-  
Coordinator

**Kkalpana Industries (India) Limited**  
CIN: L18202WB1989P030431  
Regd. Office: Bhasa, No. 14, P.O. & P.S. Bishnupur,  
Diamond Harbour Road, South 24 Parganas - 743653,  
West Bengal, Telephone: +91-033-4564 7343  
E-Mail: [info@kcalpana.co.in](mailto:info@kcalpana.co.in), Website: [www.kcalpana.co.in](http://www.kcalpana.co.in)

**SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGE/MENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES TILL 06.01.2026**  
Notice is hereby given that pursuant to SEBI Circular SEBI/HO/MRSD/MRSD-PoD/PI/CIR/2025/29 dated July 02, 2025, the Company has opened a special window exclusively for the re-lodgement of transfer deeds, which were lodged prior to the deadline of April 01, 2019 and rejected/rejected/attended due to the deficiency in the document/procedure otherwise in order to facilitate ease of investing for investors and to secure the rights of investors in the securities which were purchased by them. The special window will remain open from July 07, 2025 to January 06, 2026.  
Re-lodgement of legally valid and complete documents for transfer of physical shares, where there is no dispute on ownership will be considered. Investors may submit their request till January 06, 2026, with the Registrar & Share Transfer Agent (RTA) of the Company.  
The details of RTA are as under:  
C.B. Management Services Private Limited  
Regd. Office: C-101, 01<sup>st</sup> Floor, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400063  
Kolkata Branch Address: Rasool Court, 5<sup>th</sup> Floor, 20 Sir, R.N. Mukherjee Road, Kolkata - 700001  
Phone: 033 6906-6200 (100 lines)  
Fax: 033 4011 0739  
Email: [rtg@cbml.com](mailto:rtg@cbml.com)  
During this period, the securities that are re-logged for transfer shall be issued only in demat mode. Investors must have a demat account and provide its Client Master List (CML), along with the transfer documents and share certificate, while re-logging the transfer request with RTA. Due process shall be followed for such transfer-cum-demat requests.  
We reiterate that re-lodgement will be allowed only in those cases where transfer deed for physical shares were lodged before April 01, 2019 and were rejected/rejected/attended due to the deficiency in the documents/procedure or otherwise.  
Date: 25.07.2025  
Place: Kolkata

**RBL BANK LIMITED**  
Administrative Office: 14 Lane, Shalimar, Kolkata-700017  
Branch Office: 1st Floor, Building No. 1, Modi Mills Compound, Okhla Industrial Estate, Phase - 3, New Delhi - 110023.

**PUBLICATION OF NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE SARFAESI ACT, 2002**  
Notice is hereby given that the under mentioned borrower(s)/guarantor(s)/mortgagor(s) (including the Legal Heirs, in case of death of any of the Borrower/Co-Borrower/Guarantor(s)) who have defaulted in the repayment of principal and interest of the Credit/Loan facilities obtained by them from the Bank and whose loan accounts have been classified as Non-Performing Assets (NPA), the notices were issued to them under Section 13(2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (SARFAESI Act) on their last known addresses.

S. No.	Name and Address of the Borrower, Co-Borrower/Guarantors/Mortgagor	Loan Account No.	Details of Properties/ Address of Secured Assets to be Enforced	Date of Notice	Amount Due (in Rs.)
1	Pankaj Kumar Singh (Alias Kumar Pankaj Singh) S/o Shri Shyam Prasad Singh SDF-2, first floor, post office building sec-7, Faridabad Haryana-121006 Also at: LG electronics India Pvt.Ltd. 51, Udyog Vihar, Greater Noida-201306	9144382	Villa Bearing No. 47 in Block-B on Plot No. 541 having super area 1870 sq. ft., plot area 162 sq. yards, comprising of drawing cum dining room, three bed rooms, four toilets, kitchen in the said residential colony namely "Green Valley", situated in sector-44-42 Urban Estate Faridabad (Haryana) and the said is bounded as under:- North: Villa No. 48, South: 8 meter wide road, East: Villa No. 46, West: Villa No. 40	14-07-2025	Rs. 8,11,582/11/- (eight lakhs eleven thousand five hundred eighty two and paise eleven only) together with interest at contractual rate, till complete payment and incidental expenses thereon.

The above borrowers and/or their guarantor(s)/mortgagor(s) (including the Legal Heirs, in case of death of any of the Borrower/Co-Borrower/Guarantor(s)) (whenever applicable) are hereby called upon to make payment of outstanding amount within 60 days from the date of publication of this notice, failing which further steps will be taken after expiry of said 60 days under sub-section (4) of Section 13 of SARFAESI Act. Please note that this publication is made without prejudice to such rights and remedies as are available Bank against the borrower(s)/guarantor(s)/mortgagor(s) (including the Legal Heirs, in case of death of any of the Borrower/Co-Borrower/Guarantor(s)) of the said facility under the law. You are further requested to note that as per section 13(1) of the said act, you are restrained (prohibited) from disposing of or dealing with the above secured asset or transferring by way of sale, lease or otherwise of the above secured asset, without our prior written consent.  
Place: Haryana, Date: 26.07.2025  
Authorised Officer: RBL Bank Ltd.

**RAILTEL CORPORATION OF INDIA LIMITED**  
(A Govt. of India Undertaking)  
CIN: L64202DL2006CG107905  
Registered & Corporate Office: Plot - A, 6th Floor, Office Block Tower-2, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023, Website: [www.railtel.in](http://www.railtel.in), E-mail: [cs@railtel.in](mailto:cs@railtel.in) Tel: +91 11 22900600, Fax: +91 11 22900699

**NOTICE OF THE 25<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING**  
Notice is hereby given that the 25<sup>th</sup> (Twenty-Fifth) Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company will be held on Wednesday, 20<sup>th</sup> August, 2025 at 11:30 Hrs through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No. 20/2023 dated 05/05/2023 and subsequent circulars and the latest being Circular No. 09/2024 dated 19/09/2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFO/DPD/2-P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI).  
In line with the aforesaid Circulars, the Notice of 25<sup>th</sup> AGM and Annual Report of the Company for the Financial Year 2024-25 have been sent through electronic mode on Friday, 25<sup>th</sup> July, 2025 to those members whose e-mail IDs are registered with the Depository Participant (DP) or Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Company as on Friday, 18<sup>th</sup> July, 2025. The same is also hosted on the website(s) of the Company ([www.railtel.in](http://www.railtel.in)), Stock Exchanges i.e. BSE Limited ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)), National Stock Exchange of India Limited ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) and NSDL ([www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com)).  
Pursuant to the Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 ("SEBI LODR"), Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company has engaged the services of Depository viz. NSDL to provide the remote e-voting facility. The company is providing facility to cast vote(s) on the business as set forth in the Notice of AGM through remote e-voting as well as e-voting during the AGM through VCO/AVM.  
Members are hereby informed that:  
(i) The remote e-voting period commences on Saturday, 16<sup>th</sup> August, 2025 (9:00 AM) (IST) and ends on Tuesday, 19<sup>th</sup> August, 2025 (6:00 PM) (IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter and shall not be allowed beyond said date and time.  
(ii) Any person whose name is registered as member in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the date of the meeting, i.e. on Wednesday, 13<sup>th</sup> September, 2025 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting or for participation at the AGM or vote through e-Voting system during the AGM.  
(iii) Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the Notice has been sent electronically by the Company and holds shares as on cut-off date may obtain the login id and password by sending request along with their shareholding details to [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com).  
(iv) The members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM through VCO/AVM but shall not be entitled to cast their vote again. Once a vote on a resolution is submitted by the member through e-voting the member shall not be allowed to change it. The remote e-voting facility is available at the link [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).  
(v) Only those shareholders, who are present in the AGM through VCO/AVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.  
Members are requested to refer to Instructions for remote e-voting forming part of AGM Notice. If you have any queries or issues regarding attending AGM & E-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Members available on the website [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) under the "Downloads Section". You can also contact NSDL at 022-4686 7000 and 022-2499 7000 or Ms. Pallavi, at designated e-mail ID: [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) who will address the grievances related to electronic voting.  
Place: New Delhi  
Date: 25.07.2025  
E-Mail: [cs@railtel.in](mailto:cs@railtel.in)  
Phone: +91 11 22900600  
Fax: +91 11 22900699

For RailTel Corporation of India Limited Sd/-  
(J S Marwah)  
Company Secretary and Compliance Officer

**Aadhar Housing Finance Ltd.** 

Corporate Office: Unit No. 802, Nataraj Rustomjee, Western Express Highway and M.V. Road, Andheri (East), Mumbai - 400069.

Rudrapur Branch : Shop No. - 06 & 07, Plot No. D1, D2, 16/1 and 17/1, Kharsa no. 80, SGAD Complex, Nainital road, Udhm Singh Nagar, Rudrapur - 263153 (Uttarakhand)  
Agra Branch : Office No.584 on 5th Floor, Business Square, Block-E-15/8, Sanjay Place, Agra UP-282002 District - Agra  
Muzaffarnagar Branch: First Floor, 52/9, Bagh Kamabakhla, Nikat Jain Milan Jansah Road, Pin-251314  
Modinagar Branch: Shop No-16 Diwan Building 2nd Floor Near TRM Public School Nih-58 Modinagar Ghaziabad-212004 (UP)  
Meerut Branch: 1st Floor, Arjan Square, Near PVS Mall, Yojna No. - 3, I.S. 190, Shastri Nagar, Meerut - 250002 (UP)

APPENDIX IV POSSESSION NOTICE (for immovable property)				
Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of Aadhar Housing Finance Limited (AHFL) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, Demand Notice(s) issued by the Authorised Officer of the company to the Borrower(s)/Guarantor(s) mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s)/Guarantor(s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-Section (4) of the Section 13 of the said Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement rules, 2002. The borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of AHFL, for an amount as mentioned herein under with interest thereon.				
Sr. No.	Name of the Borrower(s)/Co-Borrower(s)/Name of the Branch	Description of Secured Asset (Immovable Property)	Demand Notice Date & Amount	Date of Possession
1	(Loan Code No. 08000000370 / Rudrapur Branch) Vaid Ali (Borrower) Mahid Vaid Ali (Co-Borrower) Mohd Sarfar (Guarantor)	All that part & parcel of property bearing, House At Kh No 945 Min Vili Sarvakhara Morabadd Road 12 Kashipur, Udhamsinghnagar, Uttarakhand, 244713. Boundaries:- East -Property Of Abdul Majid, West -18 Feet Wide Road, North - Property Of Other Person, South -Property Of Seller	12-04-2025 & ₹ 8,23,986/-	23-07-2025
2	(Loan Code No. 08010000308/ Rudrapur Branch) Amit Chauhan (Borrower), Bhavana Chauhan & Suresh Kumar (Co-Borrower)	All that part & parcel of property bearing, Suavala Road Jaspur Patti Netram Jaspur Udham Singh Nagar Uttarakhand 244712 Boundaries:- East -Road 25 ft. wide, West - Shop Karan Singh, North - Shop Talu Bala, South-Shop Ujjwal	11-03-2025 & ₹ 10,75,785/-	23-07-2025
3	(Loan Code No. 01400002580 / Agra Branch) Ali Nazar (Borrower) Late. Shana (Represented Through The Legal Heir) (Co-Borrower), Mohammad Navab & Vavlu (Guarantors)	All that part & parcel of property bearing, Property At Plot No. 43 & 44 Lines in Kharsa No. 431, Ramkrishna Colony (Property Area 143.07 Sq. Mtrs.), Masza Nagla Malviya, Kasba Fatehpur Sikri, Tehsil Kirawali, Agra, Uttar Pradesh, 283110 Boundaries: East: Vacant Plot of Neeraj, West: Plot Neeraj, North: 12 feet wide rasta, South: Property of Ishwar Chand	08-04-2025 & ₹ 5,69,459/-	24-07-2025
4	(Loan Code No. 11410000520 / Muzaffarnagar Branch) Sanveer (Borrower) Khurshida (Co-Borrower)	All that part & parcel of property bearing, Residential Plot on Mohalla At Khataul Rural, (Islamabad Bhod) Pargana & Teh: Khataul Rural, Muzaffarnagar UP 251201 Boundaries:- East -House Of Babu, West- Rasta 12 Ft, North -House Of Alim Mohammad, South- Rasta 8 Ft.	12-04-2025 & ₹ 13,83,018/-	24-07-2025
5	(Loan Code No. 08900000446 / Modinagar Branch) Raj Kumar Upadhyay (Borrower), Priyanka Upadhyay (Co-Borrower), Nisha (Guarantor)	All that part & parcel of property bearing, Flat No Sf 03, Second Floor, Without Roof Rights Area Measuring 60.385 Sq. Mtr, Kharsa No. 953 MI, Situated In Krishna Vihar Colony, Pooja Apartment, Village Shapur Pargana, Pargana Dasna, Tehsil & District, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201001. Boundaries:- East -Other Property, West - Flat No Sf 02, North - Common Area & Flat No Sf-04, South -Rasta 17.6 Ft Wide	08-04-2025 & ₹ 10,21,815/-	24-07-2025
6	(Loan Code No. 00500001371 / Meerut Branch) Durgesh Rajnish Kumar Sharma (Borrower) Rajnish Kumar Sharma (Co-Borrower) Ravi Prakash Gupta (Guarantor)	All that part & parcel of property bearing, EWS House No. S.F.- 15 (Sector- B) at 2nd Floor (Property Area 32.39 sq. mtrs.) Yanua Puram (Residential Scheme Nagar), Bulandshahr, Uttar Pradesh 203001. Boundaries:- East -School, West - House No. S.F.-16, North -House No. S.F.-14, South -Rasta 6 mtr. Wide	14-04-2025 & ₹ 6,25,702/-	23-07-2025

Place: Uttar Pradesh/ Uttarakhand  
Date: 26-07-2025  
Authorised Officer  
Aadhar Housing Finance Limited

## Aditya Birla Sun Life Insurance Company Limited



## Aditya Birla Sun Life Insurance Company Limited : Newspaper Publication Publishing Purpose : Standalone

[Regulation 52 (8) read with Regulation 52 (4) of the Listing Regulations]

(Amounts in lakhs of Indian Rupees)

Sr. No.	Particulars	Quarter ending 30 <sup>th</sup> June, 2025	Quarter ending 30 <sup>th</sup> June, 2024	Year Ended 31 <sup>st</sup> March, 2025
		(Unaudited)	(Audited)	(Audited)
1	Premium Income (Gross) (Refer note (b))	3,55,810	3,98,623	20,48,833
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and / or Extraordinary items*)	2,330	1,241	10,089
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items*) (Refer note (c))	2,330	1,241	10,089
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items*)	2,572	1,254	9,958
5	Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] (Refer note (d))	NA	NA	NA
6	Equity Share Capital (as at date)	2,01,959	1,98,651	2,01,959
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet (Refer note (e))	2,05,072	1,49,728	1,99,617
8	Securities Premium Account	1,00,262	72,470	1,00,262
9	Net Worth	4,08,672	3,50,685	4,00,027
10	Paid up Debt Capital / Outstanding Capital	1,50,000	75,000	1,30,000
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	NA	NA	NA
12	Earning Per Share (Basic), Face Value of Rs. 10 (in Rs.) (not annualized for the quarter)	0.13	0.06	0.50
13	Earning Per Share (Diluted), Face Value of Rs. 10 (in Rs.) (not annualized for the quarter)	0.13	0.06	0.50
14	Debt Equity Ratio (as at date) (no of times)	0.37	0.21	0.32
15	Capital Redemption Reserve (as at date)	6,829	6,829	6,829
16	Debtenture Redemption Reserve (as at date)	15,000	7,500	13,000
17	Debt service coverage ratio (no of times)	2.55	2.78	2.73
18	Interest service coverage ratio (no of times)	2.55	2.78	2.73

Note:

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52(4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Yearly Financial Results are available on the Stock Exchange websites ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) and the Company's website ([www.lifeinsurance.adityabirlacapital.com](http://www.lifeinsurance.adityabirlacapital.com))
- Premium income is gross of reinsurance and net of GST.
- Net Profit / (Loss) before tax, for the period is Profit before tax as appearing in Profit and Loss Account (Shareholders' Account).
- Line item is shown will be disclosed when Ind-AS becomes applicable for Insurance Companies.
- Reserves are shown excluding Revaluation Reserve and fair value change account.
- #-Exceptional and / or Extraordinary Items adjusted in the statement of Policyholders' and Shareholders' account with Ind-AS Rules/ AS Rules, whichever is applicable.

Mumbai, July 25, 2025

For and on behalf of  
the Board of Directors

Kamlesh Rao  
Managing Director & CEO  
(DIN: 07665616)